



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941

No. 177]

DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/JYAISTHA 8, 1941

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2019

सं.विधि 42 (3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (ई) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। 03 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 175 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
1.	2.	3.	4.
176.	क्षेत्रीय निदेशालय प्रयोगशाला, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1. श्री वी.के. सचान, वैज्ञानिक 'घ' 2. डॉ. आर.के. सिंह वैज्ञानिक 'घ' 3. डॉ. सी.के. दीक्षित वैज्ञानिक 'ख'	भौतिक, सामान्य एवं गैर धात्विक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, विष विज्ञान और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटरर्स।

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे। हालांकि, कॉलम (3) में उल्लेखित सरकारी विश्लेषक 05 वर्ष की अवधि या बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

एस.पी. सिंह परिहार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./63/19]

पाद टिप्पणी:

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728 (अ) दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये : (1) का.आ. 838 (अ), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (अ) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (अ) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (अ) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (अ) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (अ) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(अ) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (अ) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(अ) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (अ) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (अ) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (अ) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. 336(अ) दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (अ) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (अ), दिनांक 01.06.2001 और (16) का.आ. संख्या 532 (अ), दिनांक 01.01.2002, (17) का.आ. संख्या 1168 (अ), दिनांक 01.06.2001, (18) का.आ. संख्या 888 (अ), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.05.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.02.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.04.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2009, विधि/42(3)/87, दिनांक 15.01.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 20.09.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 27.01.2011, विधि/42(3)/87, दिनांक 31.01.2012, 14.08.2014, 10.03.2015, 11.12.2015, 07.03.2016, विधि/42(3)/87, दिनांक 03.08.2016, विधि/42(3)/87, दिनांक 06.03.2017, विधि/42(3)/87, दिनांक 19.06.2017 और विधि/42(3)/87, दिनांक 03.10.2018

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2019

No. Legal 42(3)/87—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 E, dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratory specified in column (2) of the table below as 'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the Environmental laboratories under the said Act, and the rules made there under and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 175 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 03rd October 2018, and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be added, namely:

Sl. No. (1)	Name of Laboratory (2)	Name of the Govt. Analysts (3)	Recognized for parameter groups (4)
176	Regional Directorate Laboratory, Central Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow Uttar Pradesh	1. Sh.V.K.Sachan Scientist 'D' 2. Dr. R.K.Singh Scientist 'D' 3. Dr. C.K.Dixit Scientist 'B'	Physical, General and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micrometeorological parameters.

The Environmental Laboratory so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification. However, Government Analyst so mentioned at column (3) shall be appointed for a period of five years or upto the superannuation from the services of the Board, whichever is earlier.

S.P.SINGH PARIHAR, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./63/19]

Foot Note:

The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989 (E) , dated 17-11-87, (3) S.O. 489 (E) , dated 17-5-88, (4) S.O. 156 (E) , dated 24-2-89, (5) S.O. 846 (E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375 (E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97 (E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889 (E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452 (E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631 (E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336 (E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44 (E), date 15-1-2001, (15) S.O. 490 (E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532 (E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168 (E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888 (E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-9-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, Legal/42(3)/87, dated 15-4-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010, Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010, Legal/42(3)/87, dated 27-1-2011, Legal/42(3)/87, dated 31-1-2012, Legal/42(3)/87 14-8-2014, Legal/42(3)/87 10-03-2015, Legal/42(3)/87 11-12-2015, Legal/42(3)/87 07-03-2016, Legal/42(3)/87 03-08-2016, Legal/42(3)/87 06.03.2017, Legal/42(3)/87 dated 19.06.2017 and Legal/42(3)/87 dated 03.10.2018.